



निबंधन संख्या पी0टी0-40

# बिहार गजट

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 2 पटना, बुधवार, 23 पौष 1937 (श0)  
13 जनवरी 2016 (ई0)

### विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-13	भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। ---	भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि। ---	भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---	भाग-9—विज्ञापन ---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। 14-15	भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण। ---	भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। ---
भाग-4—बिहार अधिनियम ---	पूरक ---
	पूरक-क 16-17

# भाग-1

## नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचनाएं

6 जनवरी 2016

सं० 1 स्था०-96/12-44/वि०सं०—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-3/एच०-01/2015 सा०-17620, दिनांक 21.12.2015 (संलग्न) जो सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-17378, दिनांक 16.12.2015 द्वारा वर्ष 2016 के द्वारा घोषित अवकाशों के संशोधन से संबंधित है, को सभा सचिवालय में लागू किया जाता है।

एतद् विषयक पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-2637, दिनांक 26.12.2015 को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,  
विनोद कुमार विद्यार्थी, अवर सचिव।

26 दिसम्बर 2015

सं० 1 स्था०-96/12-2637/वि०सं०—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना सं०-17378, दिनांक 16.12.2015 के आलोक में राज्य सरकार के असैनिक सचिवालय की भांति बिहार विधान-सभा सचिवालय में भी वर्ष 2016 के लिए पाँच दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली लागू किया जाता है, साथ ही उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-1, 2 एवं 3 में उल्लिखित अवकाश को भी सभा सचिवालय में लागू किया जाता है। दिनांक 1 जनवरी, 2016 से कार्यालय अवधि 9.30 बजे पूर्वा० से 6.00 बजे अप० तक होगा तथा भोजनावकाश 1.00 बजे अप० से 2.00 बजे अप० तक होगा।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,  
असीम कुमार, अवर सचिव।

16 नवम्बर 2015

सं० 2 स्था०-36/07-2339/ वि०सं०—सभा सचिवालय की अधिसूचना सं०-630, दिनांक 16.05.2005 द्वारा प्रवृत्त वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं०-3/एम-2-S-1/99, खंड-1829वि०(2), दिनांक 07.04.2005 एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार सरकार के ज्ञाप सं०-2/वै०दा०-50-17/95-1187(22), दिनांक 09.10.2015 के आलोक में श्री अवधेश तिवारी, सेवानिवृत्त उप-सचिव, बिहार विधान-सभा, पटना को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31.08.2015 तक उनके कोष में संग्रहित 300 (तीन सौ) दिनों का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले अनुमान्य वेतन तथा उक्त वेतन पर प्रचलित दर पर अनुमान्य महँगाई भत्ता के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,  
असीम कुमार, अवर सचिव।

21 दिसम्बर 2015

सं० 1 स्था०-170/15-2054/ वि०स०—सभा सचिवालय की पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या-1 स्था०-170/15-2552, दिनांक 13.12.2015 के क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि माननीय सदस्य, श्री मो० इलियास हुसैन, सं०वि०स० अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से वर्ष 2015-16 के लिए गठित अल्पसंख्यक कल्याण समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,

**राजीव कुमार**, प्रभारी सचिव।

29 दिसम्बर 2015

सं० 2 स्था०-170/14-2662/वि०स०—सभा सचिवालय के उप-सचिव श्री प्रमोद कुमार सिंह को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या-वै०दा०नि०को०-22/वि०वि०स०-06/2011-1338(22), पटना, दिनांक 24.11.15 एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-234 के अनुसरण में दिनांक 16.06.2015 से 24.06.2015 तक रूपांतरित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,

**असीम कुमार**, अवर सचिव।

31 दिसम्बर 2015

सं० 2 स्था०-238/2015-2674/ वि०स०,पटना—बिहार सेवा संहिता के नियम-73 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3ए०-7-महा०-01/2005-1500 वि०(2) दिनांक 24.03.2005 एवं सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-499, दिनांक 12.04.2005 के अनुसरण में श्री ज्योति कुमार, मुख्य प्रतिवेदक, बिहार विधान-सभा सचिवालय का 60 वर्ष की आयु पूरी होने के फलस्वरूप दिनांक 31.12.2015 के अपराह्न से सेवानिवृत्त किया जाता है।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,

**विनोद कुमार विद्यार्थी**, अवर सचिव।

31 दिसम्बर 2015

सं० 02 स्था०-238/15-2676/ वि०स०, पटना। श्री ज्योति कुमार, मुख्य प्रतिवेदक, बिहार विधान-सभा के सेवानिवृत्त होने के पश्चात् मुख्य प्रतिवेदक के रिक्त पद पर श्री श्रीरमण सिंह, वरीय प्रतिवेदक को वेतन बैंड-पी०बी०-3, 15600-39100/- रू०, ग्रेड वेतन-7600/- रू० में अन्य अनुमान्य भत्तों सहित प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से प्रोन्नति दी जाती है।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,

**विनोद कुमार विद्यार्थी**, अवर सचिव।

### वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

4 जनवरी 2016

सं० 6/वि०पत्रा०-24-01/2014-08—वा०कर—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-19 के प्रावधानों के आलोक में वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय, बिहार, पटना के लिये श्री ब्रज किशोर पचेरीवाला, वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना को अपीलीय पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
(ह०) अस्पष्ट, अवर सचिव।

f'k{kk foHkkx

अधिसूचना

5 जनवरी 2016

सं० 2/सी4-08/13-31—सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या-14402/2006, एल0पी0ए0 संख्या 1620/2013 तथा एस0एल0पी0 संख्या-9744/2015 में माननीय न्यायालय द्वारा विभिन्न तिथियों को पारित न्यायादेश के आलोक में राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय के शिक्षकों को दिनांक 01.01.1977 के प्रभाव से बिहार शिक्षा सेवा वर्ग-2 में संविलयित करने का निर्णय विभागीय संकल्प संख्या 30 दिनांक 05.01.2016 द्वारा लिया गया है।

2. संकल्प संख्या-30 दिनांक 05.01.2016 में निहित निदेश के आलोक में निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) से प्राप्त सूची में अंकित राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय के निम्नांकित शिक्षकों को उनके नाम के सामने अंकित तिथि से बिहार शिक्षा सेवा वर्ग-2 में अधिसूचित करते हुए दिनांक 01.01.1977 से सरकार द्वारा समय-समय पर बिहार शिक्षा सेवा वर्ग-2 के लिए निर्धारित वेतनमान स्वीकृत किया जाता है—

क्र० सं०	नाम	जन्मतिथि/ से० नि० की तिथि	संविलियन की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री फुल कुमार झा	07.08.24 31.08.82	01-01-77	
2	श्री एकानन्द राजहंस	05.04.19 30.04.77	01-01-77	
3	श्री रामनरेश मिश्र	19.01.32 31.01.90	01-01-77	
4	श्री शोभाकान्त झा	01.07.20 31.07.78	01-01-77	
5	श्री रतीश झा	01.11.26 30.11.84	01-01-77	
6	श्री ताराकान्त झा	02.05.19 31.05.77	01-01-77	
7	श्री गोविन्द मणि त्रिपाठी	01.03.25 31.03.83	01-01-77	
8	श्री वैद्यनाथ द्विवेदी	01.03.23 31.03.81	01-01-77	
9	श्री कालिका प्रसाद तिवारी	13.12.21 31.12.79	01-01-77	
10	श्री राम लखण प्रसाद	06.06.26 30.06.84	01-01-77	
11	श्री लक्ष्मण त्रिपाठी	03.11.28 30.11.86	01-01-77	
12	श्री परशुराम उपाध्याय	04.05.25 31.05.83	01-01-77	
13	श्री लक्ष्मीकान्त पाठक	21.08.27 31.08.85	01-01-77	
14	श्री रामनगीना ओझा	20.05.20 31.05.78	01-01-77	

क्र० सं०	नाम	जन्मतिथि/ से० नि० की तिथि	संविलियन की तिथि	अभ्युक्ति
15	श्री शिवनारायण चौधरी	15.12.22 31.12.80	01-01-77	
16	श्री लम्बोदर झा	21.09.21 30.09.79	01-01-77	
17	श्री उदयनारायण चौधरी	31.12.26 31.12.84	01-01-77	
18	श्री कमलापति मिश्र	03.02.27 28.02.85	01-01-77	
19	श्री वसंत नारायण सिन्हा	10.06.31 30.06.89	01-01-77	
20	श्री जागेश्वर प्रसाद	04.10.28 31.10.86	01-01-77	
21	श्री योगनाथ झा	15.01.24 31.01.82	01-01-77	
22	श्री विद्युशेखर पाण्डेय	6.1.31 31.1.89	01-01-77	
23	श्री रामचन्द्र झा	17.9.20 30.9.78	01-01-77	
24	श्री शिलाकान्त झा	1.4.28 30.4.86	01-01-77	
25	श्रीधर त्रिपाठी	7.4.25 31.4.83	01-01-77	
26	श्री कुमुद नाथ मिश्र	15.2.20 28.2.78	01-01-77	
27	श्री अमरनाथ झा	16.11.23 31.1.81	01-01-77	
28	श्री राम बचन दुवे	2.1.29 31.1.87	01-01-77	
29	श्री रामेश्वर नाथ पाठक	1.1.24 31-12-81	01-01-77	
30	श्री यमुनाधर मिश्र	1.4.26 31-12-83	01-01-77	
31	श्री चन्द्र किशोर झा	4.8.31 31.8.89	01-01-77	
32	श्री सुरेन्द्र नाथ पाठक	1.2.28 31-12-85	01-01-77	
33	श्री चन्द्रशेखर प्र० सिंह	30.4.21 30.4.79	01-01-77	
34	श्री वासुदेव द्विवेदी	1.8.25 31-12-82	01-01-77	

क्र० सं०	नाम	जन्मतिथि/ से० नि० की तिथि	संविलियन की तिथि	अभ्युक्ति
35	श्री नन्द किशोर झा	1.6.28 31-05-86	01-01-77	
36	श्री लखन लाल कुँवर	3.12.30 31.12.88	01-01-77	
37	श्री राजपति शुक्ल	4.11.29 30.11.87	01-01-77	
38	श्री कान्त प्रतिहस्त	7.1.23 31.1.81	01-01-77	
39	श्री राजेन्द्र झा	15.2.27 28.2.85	01-01-77	
40	श्री ब्रम्हदेव पंडित	18.1.33 31.1.91	01-01-77	
41	श्री लक्ष्मण प्रसाद	18.6.30 30.6.88	01-01-77	
42	श्री कन्हैया प्र० सिंह	10.02.36 28-02-94	01-01-77	
43	श्री राजेन्द्र प्र० दास	4.1.26 31.1.84	01-01-77	
44	श्री परमानन्द शर्मा	7.1.29 31.1.87	01-01-77	
45	योगेन्द्र प्रसाद	31.1.31 31.1.89	01-01-77	
46	श्री अर्जुन प्र० सिंह यादव	4.7.31 31.7.89	01-01-77	
47	श्री विश्वनाथ प्रसाद	5.8.26 31.8.87	01-01-77	
48	श्री चन्द्रदेव राय	1.11.28 31-10-86	01-01-77	
49	श्री सत्यनारायण प्रसाद	15.12.29 31-12-87	01-01-77	
50	श्री मदन मोहन शर्मा	8.12.28 31.12.87	01-01-77	
51	श्री जय नारायण दुवे	20.2.25 28.2.83	01-01-77	
52	श्री हरिलाल मिश्र	20.3.31 31.3.89	01-01-77	
53	श्री परमानन्द झा	7.5.27 31.5.85	01-01-77	

क्र० सं०	नाम	जन्मतिथि/ से० नि० की तिथि	संविलियन की तिथि	अभ्युक्ति
54	श्री रामचन्द्र झा	17.12.30 31.12.88	01-01-77	
55	श्री कमलाकान्त ठाकुर	4.11.35 30.11.93	01-01-77	
56	श्री बच्चा झा	1.11.31 31-10-89	01-01-77	
57	श्री दिवाकान्त झा	14.10.24 31.10.82	01-01-77	
58	श्री महावीर झा	11.5.28 30.5.86	01-01-77	
59	श्री युक्ति नाथ झा	15.5.26 31.5.84	01-01-77	
60	श्री हीरालाल मिश्र	6.1.24 31.1.82	01-01-77	
61	श्री दीपनारायण पाण्डेय	15.12.42 31.12.2000	01-01-77	
62	श्री हरिनारायण मिश्र	4.1.37 31.1.95	01-01-77	
63	श्री कृपानन्द मिश्र	11.7.26 30.7.84	01-01-77	
64	श्री पुरुषोत्तम प्र० टंडन	20.1.34 31.1.92	01-01-77	
65	श्री राजेन्द्र प्रसाद झा	20.1.33 31.1.91	01-01-77	
66	श्री पारसनाथ शर्मा	4.6.31 30.6.89	01-01-77	
67	श्री यदुनन्दन यादव	2.3.36 31.3.94	01-01-77	
68	श्री बैकटेश्वर शर्मा	10.4.26 30.4.84	01-01-77	
69	श्री बासुदेव झा	1.11.28 31-10-86	01-01-77	
70	श्री ब्रजमोहन झा	12.8.24 31.8.82	01-01-77	
71	श्री देवकान्त मिश्र	3.7.31 31.7.89	01-01-77	
72	श्री सुरेश चन्द्र झा	2.4.33 30.4.91	1.4.78	

क्र० सं०	नाम	जन्मतिथि/ से० नि० की तिथि	संविलियन की तिथि	अभ्युक्ति
73	श्री बाबू नन्दन शुक्ल	11.10.26 30.10.84	1.4.78	
74	श्री देव नारायण झा	15.12.35 31.12.93	1.4.78	
75	श्री भागवत ठाकुर	1.1.34 30.9.92	1.4.78	
76	श्री उमाकान्त मिश्र	13.9.27 30.9.85	1.4.78	
77	श्री कपिलदेव दूवे	1.10.35 31.10.93	1.4.78	
78	श्री अम्बिका प्रसाद गिरि	5.6.20 30.6.78	1.4.78	
79	श्री विन्देश्वरी प्र० साहु	1.8.27 31.7.85	1.4.78	
80	श्री भारतेन्दुनाथ ठाकुर	3.1.25 31.1.83	1.4.78	
81	श्री आद्यानाथ झा	10.12.34 31.12.92	1.4.78	
82	श्री विश्वनाथ प्र० देव	2.7.38 31.7.96	1.4.78	
83	श्री नित्यानन्द पाण्डेय	17.1.34 31.1.92	1.4.78	
84	श्री अच्युतानन्द झा	2.2.31 28.2.89	1.4.78	
85	श्री दीनाम्बर झा	3.3.27 31.3.85	1.4.78	
86	श्री मुक्तिनाथ झा	5.8.30 31.8.78	1.4.78	
87	श्री जगदीश पाठक	3.2.27 28.2.85	1.4.78	
88	श्री यदुबीर चौधरी	20.12.31 31.12.89	1.4.78	
89	श्री मधुकान्त झा	15.10.32 31.10.90	1.4.78	
90	श्री रामदेव सिन्हा	1.3.35 28-02-93	1.4.78	
91	श्री रामनारायण सिन्हा	15.7.35 31.7.93	1.4.78	



क्र० सं०	नाम	जन्मतिथि/ से० नि० की तिथि	संविलियन की तिथि	अभ्युक्ति
92	श्री महेश्वर प्रसाद शर्मा	1.8.37 31-07-95	1.4.78	
93	श्री राजेन्द्र प्रसाद	4.1.34 31.1.92	1.4.78	
94	श्री अवध नारायण शर्मा	13.12.35 31.12.93	1.4.78	
95	श्री सुकदेव प्र० सिंह	7.5.31 31.5.89	1.4.78	
96	श्री प्रभाकर झा	20.1.33 31.1.89	1.4.78	
97	श्री देवनन्दन शर्मा	1.1.35 31-12-92	1.4.78	
98	श्री बालेश्वर प्र० सिंह	5.8.29 31.8.87	1.4.78	
99	श्री साधुशरण पाण्डेय	1.9.19 31-08.77	1.4.78	
100	श्री ललन प्रसाद	20.2.35 28.2.93	1.4.78	
101	श्री दामोदर पाण्डेय	4.3.38 31.3.96	1.4.78	
102	श्री यमुना पाण्डेय	7.1.29 31.1.87	1.4.78	
103	श्री हरदेव शर्मा	5.6.36 30.6.94	1.4.78	
104	श्री भरत प्र० महतो	14.7.38 31.7.96	1.4.78	
105	श्री रामानुग्रह शर्मा	26.9.38 30.9.96	1.4.78	
106	श्री नारायण पाण्डेय	15.5.39 31.5.97	1.4.78	
107	श्री सीता राम झा	25.2.37 28.2.95	1.4.78	
108	श्री विष्णुदेव शर्मा	2.1.40 31.1.90	1.4.78	
109	श्री राम रणविजय ठाकुर	21.12.38 31.12.96	1.4.78	
110	श्री शम्भु प्रसाद सिंह	16.1.41 31.1.99	1.4.78	

क्र० सं०	नाम	जन्मतिथि/ से० नि० की तिथि	संविलियन की तिथि	अभ्युक्ति
111	श्री वालेश्वर प्रसाद शर्मा	9.3.38 31.3.96	1.4.78	
112	श्री केशव त्रिपाठी	5.3.36 31.3.94	1.4.78	
113	श्री रामानुज शर्मा	9.11.43 30.11.2001	1.4.78	
114	श्री ईन्दुनाथ ठाकुर	6.4.49 30.4.2009	1.4.78	
115	श्री हरे कृष्ण मिश्र	5.2.49 28.2.2009	1.4.78	
116	श्री उमानन्द मिश्र	5.2.49 28.2.2009	1.4.78	
117	श्री गिरिधर झा प्रफुल्ल	1.7.49 30-06.2009	1.4.78	
118	श्री सच्चिदानन्द शर्मा	1.7.49 30-06-09	1.4.78	
119	श्री रमानन्द झा	1.9.46 31-10.2004	1.4.78	
120	श्री जगन्नाथ झा	10.11.46 30.11.2004	1.4.78	
121	श्री ऋषिकेश ठाकुर	1.1.49 31-12-08	1.4.78	
122	श्री गोपी कृष्ण झा	15.3.36 31.3.94	1.4.78	
123	श्री रामनरेश शर्मा	8.9.40 30.9.98	1.4.78	
124	श्री रामयतन पासवान	1.7.48 30-06-08	1.4.78	
125	श्री आनन्द मोहन	8.1.51 31.1.2011	1.4.78	
126	श्री काली कान्त ठाकुर	5.6.49 30.6.2009	01-01-77	
127	श्रीमती ज्ञानी मिश्रा	20.10.56 31.10.2016	01-01-77	
128	श्री सुरेन्द्र चौधरी	2.10.50 31.10.2010	2.9.77	
129	श्री बलदेव पासवान	2.10.50 31-10-10	6.9.77	

क्र० सं०	नाम	जन्मतिथि/ से० नि० की तिथि	संविलियन की तिथि	अभ्युक्ति
130	श्री शम्भु नाथ झा	5.6.53 30.6.2013	7.12.77	
131	श्री दामोदर उपाध्याय	13.12.53 31.12.2013	8.12.77	
132	श्री अवध कान्त झा	14.9.55 30.9.2015	9.12.77	
133	श्रीकान्त शर्मा	20.12.60 31.12.2020	19.10.81	
134	श्री (डॉ०) रामनरेश	18.3.53 31.3.2013	6.7.82	
135	श्री प्रभाकर प्र० सिंह	2.7.50 31.7.2010	13.7.82	
136	श्री अरविन्द कुमार ठाकुर	7.1.51 31-01-11	13.7.82	
137	मो० शकील अहमद	5.3.55 31.3.2015	13.7.82	
138	श्री रवीन्द्र नाथ पाण्डेय	12.7.57 31-07-17	12.7.82	
139	श्री विजय किशोर पाठक	20.1.58 31-01-18	19.6.82	
140	श्री विजय कान्त झा	5.1.54 31.1.2014	13.7.82	
141	श्री ध्रुवनारायण त्रिपाठी	13.1.56 31.1.2016	15.7.82	
142	श्री गिरिश नन्दन मिश्र	8.1.58 31.1.2018	7.7.82	
143	श्री राजेन्द्र प्रसाद	4.4.49 30.4.2009	5.2.82	
144	श्री शिवनन्दन राय	2.7.50 31.7.2010	10.2.83	
145	श्री रामस्वरूप यादव	17.1.51 31.1.2011	4.2.83	
146	श्री प्रकाश कुमार	5.4.58 30.4.2018	20.1.83	
147	श्री कृपाधीश चन्द्र श्रीवास्तव	5.1.55 31-01-15	25.1.83	
148	श्री नवीन चन्द्र ठाकुर	1.5.54 30-04-14	24.1.83	

क्र० सं०	नाम	जन्मतिथि/ से० नि० की तिथि	संविलियन की तिथि	अभ्युक्ति
149	श्री रघुनाथ राम	26.8.47 31-8-2007	20.1.83	
150	श्री जगदेव भिंडवार	30.8.59 31-8-2019	15.9.94	
151	श्री अशोक कुमार सिन्हा	15.8.62 31.8.2022	16.9.94	
152	श्री मुनमुन प्रसाद	20.5.62 31-05-22	21.9.94	
153	श्रीमती सरोज प्रकाश	15.1.63 31-01-23	22.9.94	
154	श्री सुदर्शन शर्मा	17.3.62 31-03-22	23.9.94	
155	श्री गोपाल कृष्ण झा	10.2.65 28-02-25	23.9.94	

3. सभी संविलयित पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे अपना सेवा-पुस्त/सेवा इतिहास/नियुक्ति पत्र एवं प्राप्त वेतन विवरणी के साथ जिस विद्यालय में कार्यरत है अथवा जिस विद्यालय से सेवा निवृत्त हुए हैं, के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य के माध्यम से वेतनपुर्जा निर्गत करने हेतु वित्त (वै०दा०नि०को०) में आवेदन देना सुनिश्चित करेंगे ताकि वेतनपुर्जा निर्गत किया जा सके।

4. प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०)-अवर शिक्षा सेवा (शिक्षण शाखा) से संविलयित पदाधिकारियों के समान राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालयों के संविलयित पदाधिकारियों का वेतनपुर्जा निर्गत करने की कार्यवाई करने का कष्ट करेंगे।

5. निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) से प्राप्त सूची में कुछ पदाधिकारियों के संबंध स्पष्ट सूचना अंकित नहीं रहने के कारण जाँचोपरांत आवश्यकतानुसार उनके संबंध में अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा।

6. इसमें किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर इसे संशोधित किया जा सकेगा तथा प्राप्त की गयी राशि वसूलनीय होगी।

fcgkj&jkT; i ky ds vkn\$ k l s

राजेन्द्र राम, निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

अधिसूचना

(शुद्धि पत्र)

8 जनवरी 2016

सं० 20/सू०ज०स०वि०—मीडिया जगत, पत्रकारों एवं सूचना कर्मियों के बीच सहज सम्पर्क एवं जन-संचार को विकसित करने हेतु जिला मुख्यालय में प्रेस क्लब के निर्माण रु 27,76,32,000/- (सत्ताईस करोड़ छिहत्तर लाख बत्तीस हजार) रुपये की स्वीकृति मंत्रिपरिषद से प्राप्त होने के पश्चात् विभागीय अधिसूचना संख्या-185, दिनांक 17.03.2015 के द्वारा अधिसूचित है।

विभागीय अधिसूचना संख्या-185, दिनांक 17.03.2015 की कंडिका-5 में उल्लेखित है कि भवन का निर्माण मुख्य शीर्ष -2220 सूचना एवं प्रचार उप मुख्य शीर्ष-60'अन्य लघु शीर्ष-106 क्षेत्र प्रचार उप शीर्ष-0101 क्षेत्रीय प्रचार अंतर्गत आवंटित राशि से होगा।

चूँकि उपर्युक्त शीर्ष में प्राप्त उपबंध से राशि प्रत्यापित कर प्रथम अनुपूरक के माध्यम से भवन निर्माण विभाग के मांग सं०-3 के सुसंगत शीर्ष के अन्तर्गत राशि स्थानान्तरित की गई है, अतः कंडिका-5 में उल्लेखित शीर्ष के स्थान पर भवन निर्माण विभाग के मांग सं०-3 के शीर्ष-4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परियोजना-60-अन्य भवन-051-निर्माण-0109 सूचना भवने-5301 मुख्य निर्माण कार्य विपत्र कोड पी०-4059600510109 से प्रतिस्थापित किया जाता है।

भवन निर्माण विभाग नियमानुसार संबंधित कोषागार से राशि की निकासी कर बिहार स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, (भवन निर्माण विभाग के अधीन) के पी०एल० खाता में राशि अंतरित करेंगे।

vknsk l s

गौरी शंकर प्रसाद, अवर सचिव।

xg 1/kj {kh/2 folkkx

vf/kl ipuk

28 fnl Ecj 2015

सं० 2/वि-20-16/2015-गृ०आ०-8842—बिहार पुलिस अधिनियम 2007 की धारा-04 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निगरानी विभाग के अधीन निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के लिए, बिहार निगरानी अन्वेषण सम्वर्ग नियमावली-2012 की कंडिका-9 के तहत निगरानी विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं०-5448 दिनांक 05.11.2014 के द्वारा सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षकों की संविदा के आधार पर बिल्कुल अस्थाई रूप से किया गया नियोजन एवं उनके पत्रांक-5634 दिनांक 14.11.2014 के द्वारा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में पदस्थापित निम्नांकित सेवानिवृत्त पुलिस पदाधिकारियों को उनके नियोजन काल के लिए पुलिस फोर्स का अंग घोषित किया जाता है :-

00	i nkf/kdkfj ; ka dk uke	; kx nku dh frffk
1-	2	3
1.	श्री राम कृष्ण पोद्दार	07.11.2014
2.	श्री विजय कुमार श्रीवास्तव	10.11.2014
3.	श्री मुन्ना प्रसाद	10.11.2014
4.	श्री विनय कुमार सिंह	14.11.2014
5.	श्री तारणी प्रसाद यादव	14.11.2014

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
महाशंकर मिश्र, विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 43—571+100-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>

## भाग-2

### बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

okf.kT; &dj foHkkx

'kf) i =

4 जनवरी 2016

सं० 6/गो०-34-01/2014(खण्ड)-09—विभागीय अधिसूचना संख्या-6/गो०-34-01/2014 (खण्ड)-6953 दिनांक 17.12.2015 में अंकित श्री राजीव रंजन, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, समेकित जॉच चौकी, दालकोला, पूर्णियाँ के स्थान पर वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त प्रभारी, समेकित जॉच चौकी, दालकोला, पूर्णियाँ पढ़ा जाय।

2. प्रस्ताव पर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
(ह०) अस्पष्ट, अवर सचिव।

#### Home (Police) Department

#### NOTIFICATION

15<sup>th</sup> December 2015

No. 7/CCA-1026/2001 H(P)-8522—Consequent upon Superannuation of Hon'ble Mr. Justice Vijayeshwar Narayan Sinha, Patna High Court, who was Chairman of the Advisory Board, it is expedient to re-constitute the Advisory Board for the under mentioned Acts :

1. Bihar Control of Crimes Act, 1981
2. National Security Act, 1980
3. Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 and
4. Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under the provision of the above Acts, the State Government is pleased to reconstitute the Advisory Board for above mentioned Acts as follows :

Hon'ble Mr. Justice	<b>Sri Navaniti Prasad Singh</b>	<b>Chairman</b>
Hon'ble Mr. Justice	<b>Sri Aditya Narayan Chaturvedi (Retd.)</b>	<b>Member</b>
Hon'ble Justice	<b>Smt. Rekha Kumari (Retd.)</b>	<b>Member</b>

The reconstitution will come into effect with the issue of the notification

By order of the Governor of Bihar,  
**KAUSHLENDRA PATHAK**, Add. Secretary.

foUk foHkkx

vf/kI uk

5 जनवरी 2016

सं० वि०(27)पे०को०-44/2011-12/वि०—लोक सभा/विधान-सभा आम/उप-चुनाव के दौरान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को हिसात्मक घटनाओं या दुर्घटना या अन्य कारण से हुई मृत्यु या अपंगता की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या-451 दिनांक 09.04.2014 के प्रावधान बिहार पंचायत आम निर्वाचन-2016 के लिये यथारूप लागू होगा ।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
राहुल सिंह, सचिव (व्यय) ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।

बिहार गजट, 43—571+100-डी०टी०पी० ।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>

# बिहार गजट

## का

## पूरक(अ0)

# प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

समाहरणालय अररिया

आदेश  
28 दिसम्बर 2015

सं० 1064/स्था०—श्री अशोक कुमार हेम्ब्रम, निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर अनुमंडल कार्यालय, अररिया में पदस्थापित रहते हुए धमदाहा थाना कांड संख्या- 45/09 दिनांक 17.06.2009 के अधीन धारा-302/307/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार होने तथा अभिरक्षा में निरुद्ध किये जाने की सूचना अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक 784/सा0 दिनांक 18.06.2009 द्वारा प्राप्त हुआ था, फलतः इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 432/स्था0 दिनांक 20.06.2009 द्वारा श्री अशोक कुमार हेम्ब्रम को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया।

श्री अशोक कुमार हेम्ब्रम, निलंबित निम्नवर्गीय लिपिक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 1090/स्था0 दिनांक 21.11.2009 द्वारा जिला स्थापना उप समाहर्ता, अररिया को संचालन पदाधिकारी एवं श्री संजय कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अररिया को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के क्रम में प्रपत्र 'क' में गठित आरोप संतोषजनक नहीं पाये जाने के कारण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के दायरे में लाकर श्री हेम्ब्रम के विरुद्ध **Misconduct** का आरोप गठित कर पुनः प्रपत्र 'क' की मांग अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया से की गई। उक्त क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया से प्राप्त प्रपत्र 'क' में गठित आरोप के आधार पर श्री हेम्ब्रम के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 526/स्था0 दिनांक 15.06.2015 द्वारा श्री कारी प्रसाद महतो, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0), अररिया को संचालन पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

**श्री अशोक कुमार हेम्ब्रम, निम्नवर्गीय लिपिक के विरुद्ध प्रपत्र 'क' में गठित आरोप निम्न प्रकार है :-**

1. धमदाहा थाना कांड संख्या- 45/09 दिनांक 17.06.2009 के सूचक श्री हरि दुडू के आवेदन के अनुसार आपने उसकी विवाहित पुत्री श्रीमती मीनू दुडू को बहला-फुसला कर भगाकर 06 (छः) माह तक अपने साथ पलासी में रखा।

यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 3 के अनुसार अशोभनीय है और कदाचार की श्रेणी में आता है।

श्रीमती मीनू दुडू को जबर्दस्ती अपने साथ रखने के कारण अनबन होने पर उक्त वाद संख्या के आलोक में हत्या के आरोप में धारा- 302/307/34 के अधीन दिनांक 17.06.2009 से आज तक मंडल कारा, पूर्णियाँ में काराधीन है।

2. हत्या के आरोप में कारा में बंद रहने के कारण जिला पदाधिकारी, अररिया के आदेश ज्ञापांक 432/स्था0 दिनांक 20.06.2009 द्वारा निलंबित कर दिया गया है।



**आरोपी कर्मी श्री अशोक कुमार हेम्ब्रम का कारण-पृच्छ :-**

अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ के पत्रांक 2010 दिनांक 22.07.2015 द्वारा प्राप्त कारण-पृच्छ में श्री अशोक कुमार हेम्ब्रम अभियुक्त ST955/2009 ने गठित आरोप के विरुद्ध कहा है कि न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश त्रुटिहीन, निराधार, बिना साक्ष्य के मूलभूत सिद्धांत के विरुद्ध है। पारित आदेश के विरुद्ध मैं माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर करूँगा, मेरे स्पष्टीकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए एवं स्पष्टीकरण से मुक्त किया जाय एवं मेरा वेतन विपन्न बनाने का आदेश दिया जाय।

**उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा समर्पित साक्ष्य :-**

उपस्थापन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा एवं आरोप पत्र का समर्थन किया। उन्होंने अपने पत्रांक 1766/सा0 दिनांक 10.10.2015 द्वारा प्रतिवेदित किया कि अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ के पत्रांक 2909/जेल दिनांक 03.10.2015 द्वारा सूचित किया गया है कि श्री अशोक कुमार हेम्ब्रम, निलंबित लिपिक को धमदाहा थाना कांड संख्या- 45/2009 धारा- 302 भा0द0वि0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 20.06.2015 को माननीय न्यायालय तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम, पूर्णियाँ द्वारा आजीवन कारावास की सजा दी गई एवं पूर्णियाँ केन्द्रीय कारा में काराधीन है।

**संचालन पदाधिकारी का मंतव्य :-**

उपर्युक्त तथ्यों, आरोप पत्र, उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा दिये गये साक्ष्य, अधीक्षक केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन, आरोपित निलंबित लिपिक श्री अशोक कुमार हेम्ब्रम के कारण-पृच्छ के अवलोकनोपरान्त स्पष्ट है कि श्री अशोक कुमार हेम्ब्रम, निम्नवर्गीय लिपिक, अनुमंडल कार्यालय, अररिया के विरुद्ध गठित आरोप सत्य है एवं माननीय न्यायाधीश तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम, पूर्णियाँ द्वारा श्री हेम्ब्रम को आजीवन कारावास की सजा दी गयी, अस्तु श्री अशोक कुमार हेम्ब्रम का कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 3 के अनुसार अशोभनीय एवं कदाचार के श्रेणी में आता है। इनका कृत भा0द0वि0 धारा- 302 के अन्तर्गत दंडनीय एवं दंडित है।

**निष्कर्ष :-** उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि श्री अशोक कुमार हेम्ब्रम, निम्नवर्गीय लिपिक, अनुमंडल कार्यालय, अररिया अपने ऊपर लगाये गये आरोप को निराधार प्रमाणित करने में विफल रहे हैं। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री अशोक कुमार हेम्ब्रम के विरुद्ध लगाये गये आरोप को सत्य पाया है। माननीय न्यायालय तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम, पूर्णियाँ द्वारा श्री अशोक कुमार हेम्ब्रम, निलंबित निम्नवर्गीय लिपिक, अनुमंडल कार्यालय, अररिया को धमदाहा थाना कांड संख्या- 45/2009 धारा- 302 भा0द0वि0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत आजीवन कारावास की सजा दी गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (IX) में निहित प्रावधानों के तहत मैं हिमांशु शर्मा, भा0प्र0से0, समाहर्ता-सह-जिला पदाधिकारी, अररिया यथा वर्णित आरोपों को प्रमाणित होने के कारण श्री अशोक कुमार हेम्ब्रम, निलंबित निम्नवर्गीय लिपिक, अनुमंडल कार्यालय, अररिया को सरकारी सेवा से **सेवाच्युति (Termination)** करता हूँ।

**श्री अशोक कुमार हेम्ब्रम, निलंबित निम्नवर्गीय लिपिक से संबंधित पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है :-**

1. नाम :- श्री अशोक कुमार हेम्ब्रम
2. पिता का नाम :- श्री गजेन्द्र हेम्ब्रम
3. पदनाम :- निम्नवर्गीय लिपिक, अनुमंडल कार्यालय, अररिया
4. जन्म तिथि :- 15.01.1977
5. नियुक्ति की तिथि :- 07.02.2004
6. वेतनमान :- 5200-20200, ग्रेड पे - 1900
7. स्थायी पता :- ग्राम- बंगली कदम टोला, पो0- लतराहा, थाना- बी0 कोठी, जिला- पूर्णियाँ।  
आदेश से,  
(ह०) अस्पष्ट, जिला पदाधिकारी, अररिया।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 43—571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>